केन्द्रीय विद्यालय क्र. ५, कलिंगनगर / KENDRIYA VIDYALAYA NO.5, KALINGANAGAR वर्ष/Year-क्रम सं/S.No _____ REG. NO. पंजीकरण के लिए कक्षा/Registration for class..... (Please tick any one प्रथमपाली द्वितीयपाली या 1st Shift OR 2nd Shift **PHOTO** 1- विद्यार्थी का पूरा नाम/Name of child in full (in Capital letters)Sex M/ F M..... Others..... 2- जन्म तिथि (अंको) दिन/Day वर्ष/Year मास/Month Date of Birth (in figures) शब्दो में/In Words वर्ष दिन आयु 31-03-2022 तक मास Age as on 31.03.2022 Years Months Days 3.बच्चे का रक्त समूह/ Blood Group of the child 4. छात्र की श्रेणी/ The category to which child belongs (Please tick) GEN ST OBC **EWS** BPL Disabled SG Child 5. क्या अनुसूचितजाति/जनजाति/ओबीसी/आर्थिक रूप से कमजोर/बीपीएल/विकलांग/इकलौती कन्या से सम्बंधित हैं (यदि हां तो प्रमाण-पत्र संलग्न करे।) Whether the child belongs to (Gen/SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G.) category? Please attach relevant certificate. 6. माता–पिता का ब्योरा/ Details of Mother/ Father ब्योरा/ Details पिता/Father माता/ Mother नाम (हिंदी) / Name (English) (in Capital letters) राष्ट्रीयता/Nationality

व्यवसाय/ Occupation

| कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष Name of Office and full address with Telephone numbers | | | |
|--|--|--|--|
| पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष Full residential address with Telephone numbers | | | |
| विद्यालय से निवास की दूरी/ Distance from KV | | | |
| स्थाई पता/Permanent Address | | | |
| मूल वेतन/ Basic Pay | | | |
| 31-3-2022- तक पिछले सात वर्ष के सेवा काल के दौरान स्थानांतरणों की संख्या No.of transfers during last 7 years as on 31-3-2022 | | | |
| अभिभावक की श्रेणी रक्षा/केन्द्रीय/ कर्मी स्वायतशासी व अन्य Category to which the Parent belong to Defence/Central Govt./ Autonomous body & others | | | |
| AADHAAR NO OF STUDENT: | | | |
| मैं एतद द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियां मेरी जानकारी मे सत्य हैं। I certify that the above entries are true to the best of my knowledge. भिभावक के हस्ताक्षर/Signature of Parent | | | |
| पूरा नाम/Full Name: तिथि/Date: | | | |
| | | | |

| सवा प्रमाण पत्र/SERVICE CERTIFICATE | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | (Central Govt | - | 4 | A |
| प्रमाणित श्री/श्रीमती | किया | | जाता | है | कि गर्यालय/मंत्रालय मे |
| | | | | | सीमा सुरक्षा |
| बल/एन.एस.जी/एस.पी | . जी . / सी . आई . एस . | .एफ/केन्द्रीय | सरकार स्वायित | संस्था/सार्वजनिक | क्षेत्र के उपक्रम |
| वित्त प्रबंध केन्द्र सरकार | | | | के/की कर्मच | ॥र। ह,।जनका पूण |
| Certified that Shri/Smt | | | is | working in the o | office/Ministry of |
| | He/She | is a regula | ar/permanent/cor | ntractual employe | e of Defence |
| Service/CRPF/BSF/NSG/S | PG/CISF/Central | Govt./Autonor | mous Body/Pul | olic Sector Un | ndertaking fully |
| financed/partially finance | ed by Central Govt. | | | | |
| स्थान एवं दिनांक / Place | & Date | | ••• | | |
| कार्यालय अध्यक्ष का नाम | | | | | |
| पद /Designation | | • | | | |
| हस्ताक्षर /Sign | | | | | |
| (कार्यालय की मोहर सहि | त)/office stamp | | | | |
| | सेवा प्रमाण | पत्र/SERVIC | E CERTIFICATE | | |
| | | (State Govt. |) | | |
| प्रमाणित किया जात | ा है कि 🆇 | थ्री/श्रीमती | | | |
| कार्यालय/मंत्रालय मे का | र्यरत हैं। वह | राज्य मे कहीं | भी स्थानांतरणीय | /गैर-स्थानांतरणीय, | राज्य सरकार / |
| राज्य सरकार द्वारा वित्त | पोषित | | | संस्था | के एक कर्मचारी |
| | | | | | 7 7 7 1131 |
| हैं. | | | | | |
| Certified that Shri/Si | | | | | |
| | He/ She is a reg | gular/ permane | ent/ contractual er | mployee of State Go | overnment / State |
| govt. financed public sect | tor undertaking, nan | nely | | | |
| | | | | | |
| स्थान एवं दिनांक / Place | . S. Data | | | | |
| कार्यालय अध्यक्ष का नाम | | | | | |
| पद /Designation | | | | | |
| हस्ताक्षर /Sign | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| क्राणिका की गोटा गरि | ਰ , / ₊ ແ | | | | |
| (कार्यालय की मोहर सहि | (i) / office stamp | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| अयोग्य हो जायेगा । I know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. **TIRITI/ पिताकेहस्ताक्षर Signature of the parent Signature of the parent # ***URGEस्ताक्षर/ Countersignature ## ## ## ## ## ## ## ## ## | स्थानांतरण संख्या प्रमाण पत्र/CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
| दूसरे स्थान पर मेरे(अंको एवं शब्दों में) स्थानान्तरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है | 1 | (नाम) | ैंक (पटनाम) | | |
| दूसरे स्थान पर मेरे(अंको एवं शब्दों में) स्थानान्तरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है | '' (कार्यालय) एदत द्वारा प्रमाणित करत | ('''च)' 11 / करती हँ पिछले सात | (५४) / ५५(गाम) न साल (३१,०३,२०२ | ्र तक) में एक स्थान से | |
| गया है | दूसरे स्थान पर मेरे | (अंकों एवं शब्दों | में) स्थानान्तरण हुए | जिनका विवरण नीचे दिया | |
| (office), do hereby certify that during past 7 years (up to 31.03.2022) I have been transferred | गया है । | | | | |
| times (in figures and words) from one station to another, the details of which are given as under. 1 | 1 | (Name) | (Rank/Des | ignation) of | |
| which are given as under. 1. | (office), do | hereby certify that during | past 7 years (up to 31 | .03.2022) I have been | |
| which are given as under. 1. | transferred | times (in figures and wo | rds) from one station | to another, the details of | |
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. # जानता/ जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाएगए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य हो जायेगा 1 know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | | | · | · | |
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. # जानता/ जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाएगए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य हो जायेगा 1 know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | | | | | |
| 3. 4. 5. 6. 7. में जानता/ जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाएगए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य हो जायेगा । know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. ### ### ### #### ################### | 1. | | | | |
| 3. 4. 5. 6. 7. में जानता/ जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाएगए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य हो जायेगा । know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. ### ### ### #### ################### | 2 | | | | |
| 4. 5. 6. 7. मैं जानता/ जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाएगए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य हो जायेगा । know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. ### | | | | | |
| 5. 6. 7. में जानता/ जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाएगए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य हो जायेगा 1 know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. ***PICITE ENTRY PICITE ENTRY PICITE ENTRY PICITE ENTRY PICITE ENTRY ***IT प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय – आलेखों से जांचा गया है ल्यां पापा गया है ***IT प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय – आलेखों से जांचा गया है ल्यां पापा गया है ***IT प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय – आलेखों से जांचा गया है ल्यां पापा गया है ***[(Name) (Rank/Designation) of (office), do hereby certify that the particulars given above have been authenticated by the records held in the office and found correct. ****PICITE ENTRY PICITE ENTRY PICITE ENTRY ***(त्राम, पद, औरकार्यालयकीमोहरसहित) ****PICITE ENTRY PICITE ENTRY PICITE ENTRY ***(त्राम, पद, औरकार्यालयकीमोहरसहित) ****PICITE ENTRY PICITE ENTRY ***(त्राम, पद, औरकार्यालयकीमोहरसहित) ***(त्राम, पद, व्राप, पद, पद, पद, पद, पद, पद, पद, पद, पद, प | 3. | | | | |
| मैं जानता/ जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाएगए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य हो जायेगा I know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. ### ### ### ### #### ############### | 4. | | | | |
| मैं जानता/ जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाएगए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य हो जायेगा I know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. ### ### ### ### #### ############### | 5. | | | | |
| में जानता/ जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाएगए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य हो जायेगा 1 know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. ### ### ############################ | | | | | |
| मैं जानता/ जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाएगए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य हो जायेगा I know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. ### ### #### ####################### | 6. | | | | |
| अयोग्य हो जायेगा । I know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. **TIRITI/ पिताकेहस्ताक्षर Signature of the parent Signature of the parent # ***URGEस्ताक्षर/ Countersignature ## ## ## ## ## ## ## ## ## | 7. | | | | |
| अयोग्य हो जायेगा । I know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. **TIRITI/ पिताकेहस्ताक्षर Signature of the parent Signature of the parent # ***URGEस्ताक्षर/ Countersignature ## ## ## ## ## ## ## ## ## | | | | | |
| Signature of the parent \[\frac{\text{Ighter} \text{KT} \text{Countersignature}}{\text{iff} \text{Thy Ucan} \text{ (कार्यालय), एदत} \] हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय - आलेखों से जांचा गया है व्सही पाया गया है \[\text{(Name)} \text{(Rank/Designation)} \text{ of of countersignature} \] \[\text{(Name)} \text{(Rank/Designation)} \text{ of of countersignation} \text{ of of counters given above have been authenticated by the records held in the office and found correct. \[\text{autiful equal bility of counters} \] \[\text{(Pill place} \text{(Pill place} \text{(Pill place} \text{(Signature of head of the office darior)} \] \[\text{(With name / designation and office stamp)} \] \[\text{autiful equal bility of counters} \text{(Pill place} (Pill pl | अयोग्य हो जायेगा । know that if above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for | | | | |
| मैं | | | | | |
| मैं | | प्रतिहस्ताक्षर/Counter | signature | | |
| I | ਸੈਂ | | | (कार्यालय), एदत | |
| I | द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उप | ारोक्त विवरण को कार्यालय [्] | - आलेखों से जांचा गया | है व्सही पाया गया है। | |
| records held in the office and found correct. कार्यालयअध्यक्षकेहस्ताक्षर (नाम, पद, औरकार्यालयकीमोहरसहित) स्थान/Place | | | | | |
| कार्यालयअध्यक्षकेहस्ताक्षर (नाम, पद, औरकार्यालयकीमोहरसहित) स्थान/Place | (office), do | hereby certify that the part | iculars given above have | e been authenticated by the | |
| स्थान/Place | records held in the office and found co | orrect. | | | |
| स्थान/Place Signature of head of the office दिनांक/ Date (with name / designation and office stamp) कार्यालयका पूर्ण पता एवं दूर भाष संख्या Complete address and phone number of office टिप्पणी: एक स्थान पर ठहर ने कि अवधि कम से कम 6 मास होनी चाहिए | | | | | |
| दिनांक / Date (with name / designation and office stamp) कार्यालयका पूर्ण पता एवं दूर भाष संख्या Complete address and phone number of office टिप्पणी: एक स्थान पर ठहर ने कि अवधि कम से कम 6 मास होनी चाहिए | | | | | |
| कार्यालयका पूर्ण पता एवं दूर भाष संख्या Complete address and phone number of office टिप्पणी: एक स्थान पर ठहर ने कि अवधि कम से कम 6 मास होनी चाहिए | | | | | |
| Complete address and phone number of office | | | | | |
| टिप्पणी: एक स्थान पर ठहर ने कि अवधि कम से कम 6 मास होनी चाहिए | | | | | |
| | | | | | |
| Note: Minimum period of posting/ stay at a place should be six months. | | | | | |

| सेवाके दौरानमृत्युप्रमाणपत्र /CERTIFICATE OF DEATH IN HARNESS | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| (केवलकेंद्रीयसरकारकेर्कर्मचारियोंकेलिए /Only for Central Govt. Employees) | | | |
| प्रमाणित कियाजाता है कि कुमार/ कुमारी स्वर्गीयश्री/ श्रीमती | | | |
| क पुत्र / पुत्री हैं जो (कार्यालय / विभाग) में | | | |
| नियमित रूप से सेवारतथे/ थीं और उनका देहावसान सेवाकाल कि अविध में दिनांक को होगया | | | |
| था। | | | |
| Certified that Master/ Misss/o d/o Late Shri/ Smt. | | | |
| who was a regular employee of(Office/ Department) and he/ she is died in harness(while in service) on(date) | | | |
| marriess(writte in service) on(date) | | | |
| | | | |
| | | | |
| <u>कार्याल</u> यअध्यक्षकेहस्ताक्षर | | | |
| (नाम, पद, औरकार्यालयकीमोहरसहित) स्थान/Place Signature of head of the office | | | |
| स्थान/Place Signature of head of the office दिनांक/ Date (with name / designation and office stamp) | | | |
| | | | |
| कार्यालयकापूर्णपताएवंदूरभाष | | | |
| Complete Address & Telephone No. of the office | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <u>UNDERTAKING</u> | | | |
| I hereby undertake that | | | |
| my residential address mentioned below is Kilometer/s away from Kendriya Vidyalaya No.5, | | | |
| my residential address mentioned below is kilometer/s away from kendriya vidyalaya No.5, | | | |
| | | | |
| Kalinganagar. The information furnished is true to the best of my knowledge. | | | |
| Kalinganagar. The information furnished is true to the best of my knowledge. Address | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Address | | | |
| Address Name & Signature of the parent | | | |
| Address | | | |
| Address Name & Signature of the parent Mobile No.: * Birth certificate issued by Municipal corporation/ Nagar Nigam/ Gram Panchayat /Civil Hospitals/ | | | |
| Address Name & Signature of the parent Mobile No.: * Birth certificate issued by Municipal corporation/ Nagar Nigam/ Gram Panchayat /Civil Hospitals/ Defence Hospitals/ Copy from office records of defence personnel/ affidavit by the parent) | | | |
| Address Name & Signature of the parent Mobile No.: * Birth certificate issued by Municipal corporation/ Nagar Nigam/ Gram Panchayat /Civil Hospitals/ | | | |
| Address Name & Signature of the parent Mobile No.: * Birth certificate issued by Municipal corporation/ Nagar Nigam/ Gram Panchayat /Civil Hospitals/ Defence Hospitals/ Copy from office records of defence personnel/ affidavit by the parent) | | | |
| Address Name & Signature of the parent Mobile No.: * Birth certificate issued by Municipal corporation/ Nagar Nigam/ Gram Panchayat /Civil Hospitals/ Defence Hospitals/ Copy from office records of defence personnel/ affidavit by the parent) # Copy of electricity bill/ water bill/ telephone bill/ latest bank passbook/ certificate issued by employer | | | |

r

| | CHECK LIST OF THE DOCUMENTS(For office use only) (Fill Y/N or NA in the box | | | | |
|--|---|----------|----------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Date of birth certificate* (to be verified with original |) | 9 | BPL Card copy (barcoded |) |
| 2 | Undertaking of distance from Vidyalaya | | 10 | SC Certificate | |
| 3 | Ex- Defence Personnel Discharge Certificate | | 11 | ST Certificate | |
| 4 | Blood group report of student | | 12 | OBC Certificate | |
| 5 | Service Certificate with transfer details in original | | 13 | EWS Certificate | |
| 6 | Transfer orders/ joining report (if applicable) | | 14 | Single Girl Child Affidavit | |
| 7 | Disability Certificate(if applicable) | | 15 | Residence Proof # | |
| 8 | Died in harness Certificate (if applicable) | | 16 | Any Other | |
| | | | | | |
| क्र॰सं॰/ S. NO. पावती/ ACKNOWLWDGEMENT सत्र/ SESSION – 2022-23 | | | | | |
| पंजीकरण संख्या/ Registration No | | | | | |
| श्री / श्रीमती का कक्षा में उनके पुत्र/ पुत्री का कक्षा मं | | | | में | |
| | हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किया। | | | | |
| | eived an application from | | | | her / his |
| son/ | daughter | for admi | ssion to | o class | |
| | दिनाँक/ Date प्राचार्य/ Principal | | | | |
| केन्द्रीय विद्यालय (मोहर) | | | | | |

Kendriya Vidyalaya (Stamp)